



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा:-DIN- 20210964SX0000510585

क	अपील / फाइल नं./ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/20/GDM/2019	16/Refund/2018-19	30-11-2018

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-200-2021

आदेश का दिनांक / Date of Order:	27.08.2021	जारी करने की तारीख / Date of issue:	06.09.2021
------------------------------------	------------	--	------------

श्री अखिलेश कुमार, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधामा द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मुक्ति: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :
घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant/Respondent :-

M/s. Gallant Metal Ltd., Survey No.175/1, Village-Samakhiali, Tal- Bhachau, Kutch

इस आदेश (अपील) से अग्रहित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रांतीय अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवानी, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-



- (ii) विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रामाणिक होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (iii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - सेनबेट जमा की ली गई गलत राशि
 - सेनबेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान विनियम (सं- 2) अधिनियम 2014 के अंतर्भूत में पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्वयंन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
- For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
- Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
- amount determined under Section 11 D;
 - amount of erroneous Cenvat Credit taken;
 - amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
 - भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India or on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
 - यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
 - मुनिधित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो छूटी क्रेडिट इन अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं- 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
 - उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ-साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
 - पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
 - यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पत्रों कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various matters of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
 - यथामंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्वयंन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
 - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
 - उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s Gallant Metal Ltd, Kutch (hereinafter referred to as "Appellant") has filed Appeal No. V2/20/GDM/2019 against Refund Order No. 16/Refund/2018-19 dated 30.11.2018 (*hereinafter referred to as "impugned order"*) passed by the Asst. Commissioner, CGST Anjar Bhachau Division, Gandhidham Commissionerate (*hereinafter referred to as "refund sanctioning authority"*)

2. The facts of the case, in brief, are that the Appellant was engaged in the manufacture of excisable goods falling under Chapter No. 72 of the Central Excise Tariff Act, 1985 and was holding Central Excise Registration No. AACCG2934JXM001. The Appellant was availing benefit of exemption under Notification No. 39/2001-CE dated 31.07.2001, as amended (*hereinafter referred to as 'said notification'*). As per scheme of the said Notification, exemption was granted by way of refund of Central Excise duty paid in cash through PLA as per prescribed rates and refund was subject to condition that the manufacturer has to first utilize all Cenvat credit available to them on the last day of month under consideration for payment of duty on goods cleared during such month and pay only the balance amount in cash. The said notification was subsequently amended vide Notification No. 16/2008-CE dated 27.03.2008 and Notification No. 33/2008-CE dated 10.06.2008, which altered the method of calculation of refund by taking into consideration the duty payable on value addition undertaken in the manufacturing process, by fixing percentage of refund ranging from 15% to 75% depending upon the commodity.

2.1 The Appellant had filed Refund applications for the months of January, 2009, February, 2009 and March, 2009 for refund of Central Excise Duty, Education Cess and Secondary and Higher Education Cess, in terms of notification *supra* on clearance of finished goods manufactured by them, which were sanctioned to them, vide refund Orders dated 13.2.2009, 13.3.2009 and 21.04.2009, respectively. The Department reviewed the said refund orders and filed appeals before the then Commissioner (Appeals), Central Excise, Rajkot on the grounds that the refund sanctioning authority erred in sanctioning refund of Education Cess and S.H.E. Cess. The Commissioner (Appeals), Rajkot allowed the appeals vide Order-in-Appeal No. 118 to 120/2010/Comm(A)/Raj dated 30.3.2010 by holding that Appellant was not eligible for refund of Education Cess and S.H.E. Cess. The Appellant challenged the said Order-in-Appeal before the Hon'ble CESTAT, Ahmedabad.



2.2 The Appellant had filed refund application for the month of June, 2009 for refund of Central Excise Duty, Education Cess and Secondary and Higher Education Cess. The refund sanctioning authority sanctioned refund of Central Excise duty in terms of Notification No. 39/2001-CE dated 31.7.2001, as amended but did not sanction refund of Education Cess and S.H.E. Cess on the grounds that same was not exempted under said notification. Being aggrieved, the Appellant filed appeal before the then Commissioner(Appeals), Central Excise, Rajkot, which was rejected vide Order-in-Appeal No. 122/2010/Comm(A)/Raj dated 31.3.2010. The Appellant challenged the said Order-in-Appeal before the Hon'ble CESTAT, Ahmedabad.

3. The CESTAT, Ahmedabad vide its common Order No. A/11227-11230/2018 dated 20.6.2018 disposed of above appeals of the Appellant and decided the issue in favour of the Appellant.

4. Pursuant to above Order of the CESTAT, the Appellant filed refund claim of Rs. 16,07,438/- for refund of Education Cess and S.H.E. Cess before the refund sanctioning authority, which has been rejected vide the impugned order.

5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal, *inter-alia*, on the grounds that,

(i) The refund claim was made based on the CESTAT's order no. A/11227-11230/2018 dated 20-6-2018. The issue regarding refund of Education Cess and S.H.E. Cess has been settled by Hon'ble Supreme Court in SRD Nutrients Case. Hence, Education Cess and S.H.E. Cess are required to be sanctioned to them.

(ii) That after passing the order for refund, two annual refund orders were also passed namely OIOs No. 058/2010-11 dated 23-6-2010 and 104/2009-10 dated 14-7-2009, wherein the refund on annual average was calculated and sanctioned, but here the amount of education cess which was originally sanctioned was adjusted towards the refund of basic excise duties, and also reduced the same by percentage basis in terms of notification no. 16/2008-CE and 33/2008-CE, and held that the amounts were already given to the appellant.

(iii) That it is mentioned at para 8 of the impugned order that the amounts stand sanctioned already is far from truth, because the order

ds



- 5 -

No. 058/2010-11 mentioned therein pertains to year 2009-10 and specifically mentioned as "excluding education cess". Further, Order no. 104/2009-10 dated 14-7-2009, is an annual order for the period 2008-09 wherein the calculation excluded Education Cess and SHE Cess, and it was specifically mentioned as "excluding Education Cess". Since the amounts of Education Cess & SHE Cess were never considered for sanction for refund claims, the refund sanctioning authority has erred observing that the amounts claimed by them have already been sanctioned. The amounts are still due and quite visible from the above referred refund orders, wherein it is written as education cess and SHE cess excluded.

(iv) The order of the Assistant Commissioner is not correct and has not made any detailed observation of the amounts which are considered and not considered when the refunds were originally and later sanctioned, either in annual refund orders or on the directions of the Hon'ble Supreme Court. Therefore, the claim made by the appellant vide letter dated 5-9-2018, may kindly be directed to be considered, and set aside the impugned OIO, as it is not at all sustainable.

6. The Appeal was transferred to callbook in view of pendency of appeals filed by the Department against the orders of Hon'ble High Court of Gujarat in the case of VVF Ltd & others in similar matters before the Hon'ble Supreme Court. The said appeal was retrieved from callbook in view of the judgement dated 22.4.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court and has been taken up for disposal.

7. Hearing in the matter was scheduled in virtual mode through video conferencing on 17.8.2021 and communicated to the Appellant. In reply, the Appellant vide letter dated 18.8.2021 waived the opportunity of personal hearing and stated that their submissions in appeal memorandum are final and requested to dispose the appeal accordingly.

8. I have carefully gone through the facts of the case, impugned order and submissions made by the Appellant in appeal memorandum. The issue to be decided in the present appeal is whether the Appellant is eligible for refund of Education Cess and Secondary & Higher Education Cess under the provisions of the Notification No. 39/2001-CE dated 31.07.2001, as amended or otherwise?

9. On perusal of the records, I find that the Appellant was availing the



[Handwritten signature]

benefit of area based Exemption Notification No. 39/2001-CE dated 31.7.2001, as amended. The Appellant had filed refund applications for the months of January, 2009, February, 2009 and March, 2009 for refund of Central Excise Duty, Education Cess and S.H.E. Cess, which were sanctioned to them. However, on an appeal by the Department, the then Commissioner (Appeals) held that the Appellant was not eligible for refund of Education Cess and S.H.E. Cess. The Appellant's claim for refund of Education Cess and S.H.E. Cess for the month of June, 2009 was rejected by the refund sanctioning authority. Both these matters reached before the Hon'ble CESTAT, Ahmedabad who vide its Order dated 20.6.2018 held that the Appellant was eligible for refund of Education Cess and Secondary & Higher Education Cess by relying upon Hon'ble Supreme Court's judgment passed in the case of SRD Nutrients Pvt Ltd- 2017 (355) ELT 481 (S.C.). Pursuant to said CESTAT Order, the Appellant filed refund claim, which was rejected by the refund sanctioning authority on various counts vide the impugned order.

9.1 The Appellant has contended that the refund claim was made based on the CESTAT's order no. A/11227-11230/2018 dated 20-6-2018 and that the issue regarding refund of Education Cess and S.H.E. Cess has been settled by Hon'ble Supreme Court in SRD Nutrients Case. Hence, Education Cess and S.H.E. Cess are required to be sanctioned to them.

10. I find that issue regarding refund of Education Cess and Secondary and Higher Education Cess is no longer *res integra* and stand decided by the Hon'ble Supreme Court in the case of Unicorn Industries reported at 2019 (370) ELT 3 (SC), wherein it has been held that,

"40. Notification dated 9-9-2003 issued in the present case makes it clear that exemption was granted under Section 5A of the Act of 1944, concerning additional duties under the Act of 1957 and additional duties of excise under the Act of 1978. It was questioned on the ground that it provided for limited exemption only under the Acts referred to therein. There is no reference to the Finance Act, 2001 by which NCCD was imposed, and the Finance Acts of 2004 and 2007 were not in vogue. The notification was questioned on the ground that it should have included other duties also. The notification could not have contemplated the inclusion of education cess and secondary and higher education cess imposed by the Finance Acts of 2004 and 2007 in the nature of the duty of excise. The duty on NCCD, education cess and secondary and higher education cess are in the nature of additional excise duty and it would not mean that exemption notification dated 9-9-2003 covers them particularly when there is no reference to the notification issued under the Finance Act, 2001. There was no question of granting exemption related to cess was not in vogue at the relevant time imposed later on vide Section 91 of the Act of 2004 and Section 126 of the Act of 2007. The provisions of Act of 1944 and the Rules made thereunder shall be applicable to refund, and the exemption is only a reference to the source of power to exempt the NCCD, education cess,



- 7 -

secondary and higher education cess. A notification has to be issued for providing exemption under the said source of power. In the absence of a notification containing an exemption to such additional duties in the nature of education cess and secondary and higher education cess, they cannot be said to have been exempted. The High Court was right in relying upon the decision of three-Judge Bench of this Court in *Modi Rubber Limited (supra)*, which has been followed by another three-Judge Bench of this Court in *Rita Textiles Private Limited (supra)*. ”

10.1 I find that the Hon'ble CESTAT in its Order dated 20.6.2018 has relied upon Apex Court's judgment passed in the case of *SRD Nutrients Pvt Ltd - 2017 (355) ELT 481 (SC)*. However, I find that the Apex Court's said judgment passed in the case of *SRD Nutrients Pvt Ltd* has been held *per incuriam* by the Hon'ble Supreme Court in the case of *Unicorn Industries supra*. The relevant portion of the said judgement is reproduced as under:

“41. ... The reason employed in *SRD Nutrients Private Limited (supra)* that there was nil excise duty, as such, additional duty cannot be charged, is also equally unacceptable as additional duty can always be determined and merely exemption granted in respect of a particular excise duty, cannot come in the way of determination of yet another duty based thereupon. The proposition urged that simply because one kind of duty is exempted, other kinds of duties automatically fall, cannot be accepted as there is no difficulty in making the computation of additional duties, which are payable under NCCD, education cess, secondary and higher education cess. Moreover, statutory notification must cover specifically the duty exempted. When a particular kind of duty is exempted, other types of duty or cess imposed by different legislation for a different purpose cannot be said to have been exempted.

42. The decision of Larger Bench is binding on the Smaller Bench has been held by this Court in several decisions such as *Mahanagar Railway Vendors' Union v. Union of India & Ors.*, (1994) Suppl. 1 SCC 609, *State of Maharashtra & Ors. v. Mana Adim Jamat Mandal*, AIR 2006 SC 3446 and *State of Uttar Pradesh & Ors. v. Ajay Kumar Sharma & Ors.*, (2016) 15 SCC 289. The decision rendered in ignorance of a binding precedent and/or ignorance of a provision has been held to be *per incuriam* in *Subhash Chandra & Ors. v. Delhi Subordinate Services Selection Board & Ors.*, (2009) 15 SCC 458, *Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra*, (2014) 9 SCC 129, and *Central Board of Dawoodi Bohra Community & Ors. v. State of Maharashtra & Ors.*, (2005) 2 SCC 673 = 2010 (254) E.L.T. 196 (S.C.). It was held that a smaller bench could not disagree with the view taken by a Larger Bench.

43. Thus, it is clear that before the Division Bench deciding *SRD Nutrients*



Private Limited and Bajaj Auto Limited (supra), the previous binding decisions of three-Judge Bench in Modi Rubber (supra) and Rita Textiles Private Limited (supra) were not placed for consideration. Thus, the decisions in SRD Nutrients Private Limited and Bajaj Auto Limited (supra) are clearly per incuriam. The decisions in Modi Rubber (supra) and Rita Textiles Private Limited (supra) are binding on us being of Coordinate Bench, and we respectfully follow them. We did not find any ground to take a different view. ”


10.2 In view of above, I hold that the appellant is not eligible for refund of Education Cess and Secondary & Higher Education Cess.

11. I uphold the impugned order and reject the appeal.

12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

12. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित,
शिवत राठ
अधीक्षक (अपील)


27th August, 2021.
(AKHILESH KUMAR)
Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To,
M/s Gallant Metal Ltd,
Survey No. 175/1,
Village Samkhiali,
Taluka : Bhachau,
District: Kutch.

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अंजार-भचाउ मण्डल, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

